

दर्शन पाठ
Darśana Pāṭha

कविश्री बुधजन
Kaviśrī Budhajana

(दोहा)

तुम निरखत मुझको मिली, मेरी सम्पत्ति आज ।
कहाँ चक्रवर्ति-संपदा, कहाँ स्वर्ग-साम्राज ॥१॥

(dōhā)

Tuma nirakhata mujhakō milī, mērī sampatti āja ।
Kahāṁ cakravartī - sampadā, kahāṁ svarga – sāmrajā ॥1॥

तुम वंदत जिनदेवजी, नित-नव मंगल होय ।
विघ्नकोटि ततछिन टरै, लहहिं सुजस सब लोय ॥२॥

Tuma vandata jīnadēvajī, nita - nava maṅgala hōya ।
Vighnakōṭī tatachina ṭaraim, lahahim sujasa saba lōya ॥2॥

तुम जाने बिन नाथजी, एक श्वास के माँहि ।
जन्म-मरण अठदस किये, साता पाई नाहिं ॥३॥

Tuma jānē bina nāthajī, ēka śvāsa kē māṁhi ।
Janma - maraṇa aṭhadasa kiyē, sātā pār'i nāhim ॥3॥

आप बिना पूजत लहे, दुःख नरक के बीच ।
भूख-प्यास पशुगति सही, कयों निरादर नीच ॥४॥

Āpa binā pūjata lahē, du: Kha naraka kē bīca ।
Bhūkha - pyāsa paśugati sahī, karyō nirādara nīca ॥4॥

नाम उचारत सुख लहे, दर्शनसों अघ जाय ।
पूजत पावे देव-पद, ऐसे हैं जिनराय ॥५॥

Nāma ucārata sukha lahē, darśanasōm agha jāya ।
Pūjata pāvē dēva - pada, aisē hairm jinarāya ॥5॥

वंदत हूँ जिनराज मैं, धर उर समता भाव ।

तन धन-जन-जगजालतें, धर विरागता भाव ॥६॥

Vandata hūṁ jinarāja mairṁ, dhara ura samatā bhāva ।

Tana dhana - jana - jagajālatēm, dhara virāgatā bhāva ॥6॥

सुनो अरज हे नाथजी! त्रिभुवन के आधार ।

दुष्टकर्म का नाश कर, वेगि करो उद्धार ॥७॥

Sunō araja hē nāthajī! Tribhuvana kē ādhāra ।

Duṣṭakarma kā nāśa kara, vēgi karō ud'dhāra ॥7॥

याचत हूँ मैं आपसों, मेरे जिय के माँहिं ।

राग-द्वेष की कल्पना, कबहू उपजे नाहिं ॥८॥

Yācata hūṁ mairṁ āpasōṁ, mērē jiya kē māṁhiṁ ।

Rāga - dvēṣa kī kalpanā, kabahū upajā nāhiṁ ॥8॥

अति अद्भुत प्रभुता लखी, वीतरागता माँहिं ।

विमुख होहिं ते दुःख लहें, सन्मुख सुखी लखाहिं ॥९॥

Ati adbhuta prabhutā lakhī, vītarāgatā māṁhiṁ ।

Vimukha hōhiṁ tē du: Kha lahēm, sanmukha sukhī lakhāhiṁ ॥9॥

कल-मल कोटिक नहिं रहें, निरखत ही जिनदेव ।

ज्यों रवि ऊगत जगत में, हरे तिमिर स्वयमेव ॥१०॥

Kala - mala kōṭika nahīṁ rahēm, nirakhata hī jinadēva ।

Jyōṁ ravi ūgata jagata mēm, harē timira svayamēva ॥10॥

परमाणु - पुद्गलतणी, परमातम – संयोग ।

भई पूज्य सब लोक में, हरे जन्म का रोग ॥११॥

Paramāṇu - pudgalataṇī, paramātama – sanyōga ।

Bhar'i pūjya saba lōka mēm, harē janma kā rōga ॥11॥

कोटि-जन्म में कर्म जो, बाँधे हुते अनंत ।

ते तुम छवि विलोकते, छिन में होवहिं अंत ॥१२॥

Kōṭi - janma mēm karma jō, bām̐dhē hutē ananta |
Tē tuma chavi vilōkatē, china mēm hōvahir̐ anta ||12||

आन नृपति किरपा करे, तब कछु दे धन-धान |
तुम प्रभु अपने भक्त को, करल्यो आप-समान ||१३||
Āna nṛpati kirapā karē, taba kachu dē dhana – dhāna |
Tuma prabhu apanē bhakta kō, karalyō āpa – samāna ||13||

यंत्र-मंत्र मणि-औषधि, विषहर राखत प्रान |
त्यो जिनछवि सब भ्रम हरे, करे सर्व-परधान ||१४||
Yantra - mantra maṇi - auṣadhi, viṣahara rākhata prāna |
Tyōm̐ jinachavi saba bhrama harē, karē sarva – paradhāna ||14||

त्रिभुवनपति हो ताहि ते, छत्र विराजें तीन |
सुरपति-नाग-नरेशपद, रहें चरन-आधीन ||१५||
Tribhuvanapati hō tāhi tē, chatra virājēm̐ tīna |
Surapati - nāga - narēśapada, rahēm̐ carana – ādhīna ||15||

भवि निरखत भव आपनो, तुव भामंडल बीच |
भ्रम मेटे समता गहे, नाहिं सहे गति नीच ||१६||
Bhavi nirakhata bhava āpanō, tuva bhāmaṇḍala bīca |
Bhrama mēṭē samatā gahē, nāhir̐ sahē gati nīca ||16||

दोई ओर ढोरत अमर, चौंसठ-चमर सफेद |
निरखत भविजन का हरें, भव अनेक का खेद ||१७||
Dōr̐i ōra ḍhōrata amara, caunsaṭha - camara saphēda |
Nirakhata bhavijana kā harēm̐, bhava anēka kā khēda ||17||

तरु-अशोक तुव हरत है, भवि-जीवन का शोक |
आकुलता-कुल मेटिके, करैं निराकुल लोक ||१८||
Taru - aśōka tuva harata hai, bhavi - jīvana kā śōka |
Ākulatā - kula mēṭikē, karair̐m̐ nirākula lōka ||18||

अंतर-बाहिर-परिग्रहन, त्यागा सकल समाज |
सिंहासन पर रहत है, अंतरीक्ष जिनराज ||१९||

Antara - bāhira - parigrahana, tyāgā sakala samāja |
Sinhāsana para rahata hai, antarīkṣa jinarāja ||19 ||

जीत भई रिपु-मोह तें, यश सूचत है तास |
देव-दुन्दुभिन के सदा, बाजे बजें अकाश ||२०||

Jīta bharī ripu - mōha tēm, yaśa sūcata hai tāsa |
Dēva - dundubhina kē sadā, bājē bajēm akāśa ||20||

बिन-अक्षर इच्छारहित, रुचिर दिव्यध्वनि होय |
सुर-नर-पशु समझें सबै, संशय रहे न कोय ||२१||

Bina - akṣara icchārahita, rucira divyadhvani hōya |
Sura - nara - paśu samajhēm sabai, sanśaya rahē na kōya ||21||

बरसत सुरतरु के कुसुम, गुंजत अलि चहुँ ओर |
फैलत सुजस सुवासना, हरषत भवि सब ठौर ||२२||

Barasata surataru kē kusuma, guñjata ali cahuṁ ōra |
Phailata sujasa suvāsana, haraṣata bhavi saba ṭhaura ||22||

समुद्र बाघ अरु रोग अहि, अर्गल-बंध संग्राम |
विघ्न-विषम सबही टरैं, सुमरत ही जिननाम ||२३||

Samudra bāgha aru rōga ahi, argala - bandha saṅgrāma |
Vighna - viṣama sabahī ṭaraim, sumarata hī jinanāma ||23||

श्रीपाल चंडाल पुनि, अञ्जन भीलकुमार |
हाथी हरि अरि सब तरे, आज हमारी बार ||२४||

Śrīpāla caṅḍāla puni, añjana bhīlakumāra |
Hāthī hari ari saba tarē, āja hamārī bāra ||24||

‘बुधजन’ यह विनती करे, हाथ जोड़ सिर नाय |
जबलौं शिव नहिं होय तुव,-भक्ति हृदय अधिकाय ||२५||

'Budhajana' yaha vinaṭī karē, hātha jōṛa sira nāya |
Jabalaum śiva nahim hōya tuva, - bhakti hṛdaya adhiḱāya ||25||

* * * * *

2A1otus